



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 माघ 1933 (श0)
(सं0 पटना 43) पटना, मंगलवार, 31 जनवरी 2012

पर्यावरण एवं वन विभाग

अधिसूचना

25 जनवरी 2012

सं0 वन/पर्या०-29/1998-88(ई0)/प०व०—जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) की धारा-64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के परामर्श से, बिहार राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (सहमति शुल्क) नियमावली, 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करती है:-

संशोधन

बिहार राज्य जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण (सहमति शुल्क) नियमावली, 1984 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-3 के उप-नियम (2) की सारणी निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:-

सारणी

(क)	स्थानीय निकाय	सहमति शुल्क (रुपये में) (तीन वर्षों के लिए)
(i)	नगर निगम	14,000/-
(ii)	नगर परिषद	5,500/-
(iii)	नगर पंचायत	2,500/-

(ख)	उद्योग	सहमति शुल्क (रुपये में) (तीन वर्षों के लिए)
(i)	25 लाख रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	5,500/-
(ii)	25 लाख रुपये से उपर परन्तु 5 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	25,000/-
(iii)	5 करोड़ रुपये से उपर परन्तु 10 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	40,000/-
(iv)	10 करोड़ रुपये से उपर परन्तु 50 करोड़ रुपये के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	55,000/-
(v)	50 करोड़ रुपये से उपर के पूँजी निवेश तक वाली औद्योगिक इकाई	1,40,000/-

टिप्पणी:—

- (1) सारणी में विनिर्दिष्ट औद्योगिक इकाईयों के पूँजी में वैसे सभी पूँजी निवेश शामिल हैं जो भूमि, मकान, प्लान्ट और मशीनरी जैसे स्थायी आस्तियों में किये गये हों।
- (2) ऐसे सहमति आवेदन, जो बिना विहित सहमति शुल्क के दिया गया हो, पर्सद द्वारा ग्रहण नहीं किये जायेंगे।
- (3) सहमति शुल्क का भुगतान, सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्सद, पटना के पदनाम से बैंक ड्राफ्ट द्वारा की जायेगी, जो पटना में देय होगी।

यह अधिसूचना बिहार सरकार के राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
रामावतार राम,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 43-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>